

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 5112

सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**प्रसाद योजना के अंतर्गत ओडिशा से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति**

5112. श्री बसंत कुमार पंडा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन" (प्रसाद) में कौन से राज्य शामिल हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत ओडिशा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है;
- (ग) क्या भविष्य में अन्य धार्मिक स्थलों को भी उक्त योजना में शामिल किए जाने की संभावना है; और
- (घ) सरकार द्वारा ओडिशा सहित सम्पूर्ण देश में प्रसाद योजना के तहत आवंटित और खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) (ख) और (घ) : ओडिशा राज्य सहित संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर प्रसाद योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं, अनुमोदित लागत तथा जारी निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में उपलब्ध है ।

(ग) : प्रसाद योजना के अंतर्गत नई परियोजनाओं का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर शुरू की जाती है ।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध

प्रसाद योजना के अंतर्गत ओडिशा से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति के संबंध में दिनांक 04.04.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 5112 के भाग (घ) के उत्तर में **विवरण**

पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं, स्वीकृत लागतों तथा जारी निधियों की सूची

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परियोजना सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)	जारी राशि (करोड़ रु. में)
<b>जारी परियोजनाओं की सूची</b>					
आंध्र प्रदेश	1.	पर्यटन स्थल के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिले का विकास **	2015-16	27.77	27.77
	2.	श्रीशैलम मंदिर का विकास **	2017-18	43.08	43.08
अरुणाचल प्रदेश	3.	परशुराम कुंड, लोहित जिले का विकास	2020-21	37.88	7.34
असम	4.	गुवाहाटी में और आसपास कामाख्या मंदिर तथा तीर्थस्थलों का विकास **	2015-16	29.80	29.80
बिहार	5.	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में बुनियादी सुविधाओं का विकास **	2014-15	4.27	2.91
	6.	पटना साहिब का विकास **	2015-16	41.54	33.23
छत्तीसगढ़	7.	माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर, राजनंदगाँव, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ का विकास	2020-21	43.33	21.45
गुजरात	8.	द्वारका का विकास **	2016-17	13.08	10.46
	9.	सोमनाथ में तीर्थयात्री सुविधाएं **	2016-17	45.36	45.36
	10.	प्रशाद योजना के अंतर्गत सोमनाथ में प्रोमेनेड का विकास **	2018-19	47.12	44.76
	11.	सोमनाथ गुजरात में क्यू मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ तीर्थयात्री प्लाजा का विकास	2021-22	49.97	शून्य
हरियाणा	12.	पंचकुला जिले में नाडा साहेब गुरुद्वारा और माता मंशा देवी मंदिर का विकास	2019-20	49.52	28.77
जम्मू एवं कश्मीर	13.	हजरतबल में विकास	2016-17	40.46	32.37
झारखंड	14.	वैद्यनाथजी धाम, देवघर का विकास	2018-19	39.13	31.23

केरल	15.	गुरुवायूर मंदिर का विकास **	2016-17	46.14	36.91
मध्य प्रदेश	16.	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	44.83	35.87
	17.	अमरकंटक का विकास	2020-21	49.99	4.86
महाराष्ट्र	18.	त्रियंबकेश्वर का विकास	2017-18	37.81	19.28
मेघालय	19.	मेघालय में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास	2020-21	29.32	8.80
नागालैंड	20.	नागालैंड में तीर्थस्थल अवसंरचना का विकास	2018-19	25.26	20.06
ओडिशा	21.	मेगा परिपथ के तहत पुरी में श्री जगन्नाथ धाम देउली में - रामचंडी - प्राची नदी तट पर अवसंरचना विकास	2014-15	50.00	10.00
पंजाब	22.	अमृतसर में करुण सागर वाल्मीकि स्थल का विकास **	2015-16	6.40	6.40
	23.	प्रशाद योजना के तहत रोपड़, पंजाब में चमकौर साहिब का विकास	2021-22	31.57	शून्य
नागालैंड	24.	पुष्कर/अजमेर का समेकित विकास	2015-16	32.64	26.11
सिक्किम	25.	युकसोम में फोर पेट्रन सैंट्स में तीर्थयात्रा सुविधा का विकास	2020-21	33.32	18.50
तमिलनाडु	26.	कांचीपुरम का विकास **	2016-17	13.99	13.99
	27.	वेल्लांकनी का विकास **	2016-17	4.86	4.86
तेलंगाना	28.	जोगुलम्बा देवी मंदिर, आलमपुर का विकास	2020-21	36.73	10.27
त्रिपुरा	29.	त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, उदयपुर का विकास	2020-21	37.84	10.59
उत्तराखंड	30.	केदारनाथ का समेकित विकास **	2015-16	34.77	34.77
	31.	प्रशाद योजना के अंतर्गत बद्रीनाथजी धाम में तीर्थयात्रियों की (उत्तराखंड) के लिए अवसंरचना का विकास सुविधा	2018-19	39.24	20.79
	32.	प्रशाद योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में गंगोत्री तथा यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के संवर्धन के लिए अवसंरचना का विकास	2021-22	54.36	14.06
उत्तर प्रदेश	33.	मेगा टूरिस्ट परिपथ के रूप में मथुरा - वृंदावन का विकास (चरण II)**	2014-15	14.93	10.38
	34.	मथुरा जिले के वृंदावन में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण **	2014-15	9.36	9.36
	35.	वाराणसी- चरण -I का विकास **	2015-16	20.40	16.32
	36.	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72	8.57

	37.	प्रशाद योजना चरण -II के अंतर्गत वाराणसी का विकास	2017-18	44.60	31.77
	38.	गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में अवसंरचना सुविधाओं का विकास	2018-19	39.74	30.97
पश्चिम बंगाल	39.	बेलूर का विकास	2016-17	30.03	23.39
		<b>** परियोजनाएं पूरी हो गई हैं</b>	<b>कुल</b>	<b>1291.16</b>	<b>785.42</b>

\*\*\*\*